FINANCIAL EXPRESS

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN

Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services) 2" Floor, Paras Tower, Majra, Niranjanpur Saharanpur Road, Dehradun BEFORE THE RECOVERY OFFICER—II, DRT, DEHRADUN NOTICE OF DEMAND & APPEARANCE

(NOTICE UNDER RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT 1961 READ WITH SECTION 25 TO 29 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY

ACT, 1993) Dy. No. 123 Date: 23.08.2022

Punjab National Bank V/s Aimer Singh & Others Gularbhoj, District Udham Singh Nagar Uttarakhand.

1. Ajmer Singh S/o Sh. Kapoor Singh, R/o House No.86, Dhimri

Block, Praful Nagar, Tehsil Gadarpur, District Udham Singh Nagar-263152, Uttarakhand.

Block, Praful Nagar, Tehsil Gadarpur, District Udham Singh Nagar-263152, Uttarakhand.

Post- Gularbhoj, Tehsil Gadarpur, District Udham Singh Nagar-263152, Uttarakhand. **Certificate Debtors**

(i) This is to notify that amount of Rs. 21,51,980.69 (Rupees Twenty One Lacs Fifty One Thousand Nine Hundred Eighty and Paisa Sixty Nine Only) plus Pendent lite and future interest @11.00% per annum simple rate on reducing balance from the date of filing of O.A. being 22.11.2018 and costs Rs. 24,000.00 is due against you as per Recovery Certificate issued dated 14.10.2019 by the Hon'ble Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Dehradun in O.A. No. 101/2019.

the receipt of the Demand Notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the provisions of the Recovery of Debts and Bankruptcy

(iii) In additions to the sum aforesaid you will be liable to pay:-

a) In such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the execution proceedings.

b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and other process that may be taken for recovering the amount

ordered to appear before the undersigned on 23.09.2022 at 1100 A.M. for further proceedings.

> Recovery Officer-II Debts Recovery Tribunal, Dehradun

YORK EXPORTS LIMITED

Regd. Office: D-6 Diwan Shree Apartments, 30 Ferozeshah Road,

Email: admin@yorkexports.in, Website: www.yorkexports.in

Notice pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI is given as Business as set out in the Notice dated 01st September, 2022 for the 40th Annual

General Meeting to be held on Friday, 30th. September, 2022 at S-115, Shakarpur, Delhi-92 at 09.00 a.m. email to all shareholders, may be transacted by voting

closed at 05.00 P.M. on 29th September, 2022.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e 23th September, 2022, may cast their vote electronically through electronic voting system of the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as well as voting through ballot at the AGM on the businesses as set out in the Notice of

Any person who has not registered his email address with the company, respective depository or Registrar can get the same registered in the manner as specified in the notice of 40th Annual General Meeting

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after email of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. 23th September, 2022, may obtain the login ID and password for remote evoting by sending a request at beetalrta@gmail.com

The remote e-voting module will be disabled after the above time line by CDSL and E-voting shall not be allowed thereafter.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.

The members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise the right at the meeting. The members who have but shall not be entitled to cast the vote again.

Regulations, 2015 with stock exchange(s), the register of members and the share transfer books of the company will remain closed from Saturday, 24th September 2022 to Friday, 30th September 2022 (Both days inclusive for the said AGM)

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

section 102 of the Act and voting instructions, is available on the CDSL website www.evotingindia.com, on website of the Company at www.yorkexports.in and on website of the stock exchange at www.bseindia.com

Any query/grievance connecting with voting by electronic means, should be addressed to the Company Secretary at email address admin@yorkexports.in

For YORK EXPORTS LIMITED

Whole time Director) DIN: 00277485

INCONE FINANCE LIMITED

Regd. Off: 1212, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 CIN: U65999DL1922PLC051182 Website: www.inconefinancelimited.in E-mail: incone1992@gmail.com NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Limited will be held at the Registered office of the Company at 1212, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 on Friday, the 30thday of September, 2022 at 10:00 A.M. to transact the following business: ORDINARYBUSINESS

To consider and adopt the Audited Financial Statements for the financial year ended 31st March, 2022 and the reports of the Auditors and Board of Directors thereon.

To appoint Director in place of Shri Rajat Agarwal (DIN: 00266205) who retires by rotation and being eligible, offers himself for reappointment.

Conversion of Company into Private Limited Company

To consider and if thought fit, to give assent/ dissent to the following Resolution as Special

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of section 13, 14 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013, if any and subject to the approval of the Tribunal, (powers delegated to the ROC by Central Government vide General Circular No. 18/2014 dated June 11, 2014) the consent of the shareholders of the Company be and is hereby given to convert the Company from 'Public Limited' to 'Private Limited' and consequently the name of the company be changed from "INCONE FINANCE LIMITED" to "INCONE FINANCE PRIVATE LIMITED* by inserting the word 'Private' before the word 'Limited'.

Directors of the Company be and are hereby authorized to execute all such documents instruments and writings as may be required and to take all such steps and actions and give such directions as may in its absolute discretion deem necessary and to settle any question that may arise in this regard.

to do all such acts, deeds and things as may be necessary or expedient to give effect to this

Alteration of Name Clause contained in the Memorandum of Association:

To consider and if thought fit, to give assent/ dissent to the following Resolution as Special Resolution "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 13 and any other applicable provisions

of the Companies Act, 2013 (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and the rules framed thereunder the consent of the Members be and is hereby accorded for substituting Clause I of the Memorandum of Association of the Company with the following clause: "The Name of the Company is INCONE FINANCE PRIVATE LIMITED."

Adoption of New set of Articles of Association of the Company pursuant to the companies

Act, 2013 and Conversion to a Private Limited Company:

2014, including any statutory modifications or re-enactment thereof from time to time, the Articles of Association of the Company be and is hereby altered to be in conformity with the provisions of the Act relating to a private limited company and thereby inserting the restrictive clause as per Section 2(68) of the Act. RESOLVED FURTHER THAT the new set of Articles of Association pursuant to the Act

primarily based on the Form of Table F of Schedule I under the Act, be and is hereby approved and adopted as new set of Articles of Association in the place of existing Articles of Association of the Company RESOLVED FURTHER THAT any of the Directors be and are hereby severally authorised to do all such acts, deeds and things as may be necessary or expedient to give effect to

Director

DIN: 00266205

आज्ञा से एकता मिश्रा प्रथम अपर सिनियर सिविल जज, देहरादून न्यायालय प्रथम अपर सिनियर सिविल जज, देहरादून। मलवाद संख्या 41 वर्ष 2021

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा जाखन, राजपुर रोड, देहरादून

मैसर्स सत्यम डेयरी व अन्य

नोटिस बनाम प्रतिवादीगणः-


1. मैसर्स सत्यम डेयरी द्वारा प्रतिनिधि श्री ललित कमार निवासी-1-14, हरिद्वार रोड, नत्थनपर चौक, नियर अम्बीवाला, देहरादून एवं पता सं० 2-ज्वालापुर, सब्जी मण्डी, हरिद्वार।

2. श्री ललित कुमार पत्र श्री आशा राम निवासी-87, लेन नं० 12. इन्द्रप्रस्थ, अपर नत्थनपर, निकट अम्बीवाला, गुरुद्वारा, देहराद्न।

चुकि वादी उपरोक्त ने आपके विरूद्ध ऋण वसूली मुठ 2,74,963.28 / - रूपये मय ब्याज के लिए वाद संरिथत किया गया है. आपको इस न्यायालय में तारीख 29.10.2022 को प्रात: 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके, न्यायालय में आपकी उपसंजाति के लिए जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिए नियत दिन हैं, इसलिए आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन पर आप. अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते है। अतः आपको सुचित किया जाता है कि अपनी ओर से यदि आप दिनांक 29.10.2022 को इस न्यायालय में

उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा, 'आपकी अनुपरिथिति में एकपक्षीय सुना यह आज तारीख 05.09 2022 को प्रबंधक के हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

प्रथम अपर सिनियर सिविल जज, देहरादून



AKG EXIM LIMITED

CIN: L00063DL2005PLC139045 Regd. Off.: H.B. Twin Tower, 7th Floor, Max Hospital Building, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034

Corporate Office: Unit No. 237, 02nd Floor, Tower-B, Spazedge, Sector-47, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana Website: www.akg-global.com | Email: info@akg-global.com, Ph: +91-124-4267873

INFORMATION REGARDING 17TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM), CUTOFF DATE.

The Shareholders of AKG EXIM Limited ("the Company") are hereby informed that 17th (SEVENTEENTH) Annual General meeting ("AGM") will be held VC/ OAVM on Thursday, 29th September, 2022 at 04.00 pm IST, without the physical presence of the Shareholders at the common venue. In compliance with the applicable provision of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 02/2022 dated April 8 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021 December 14, 2021 and May 05, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/ P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 and SEBI/HODDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), and other applicable circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and SEBI, to transact the businesses that will be sent forth in the notice of the said AGM.

 In compliance with the above circular, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial year 2021-22 will be sent to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with respective Depository Participants. The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the company's website at www.akg-global.com and on the website of the National Stock Exchange of India Limited: (www.nseindia.com) and National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evotingindia.com). Shareholders holding shares in demat form and who have not registered

their e-mail addresses with the company/RTA or with respective Depository Participants are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants/RTA and Company in order to receive electronic copies of the Annual report/Login Credentials. Since no physical copies of Annual Report will be dispatched to any Shareholder. Manner of casting vote through e-voting

The company has entered into agreement with the NSDL, for facilitating voting through electronic means (remote e-voting) to enable the shareholders to exercise their right to vote on the resolution proposed to be passed at the AGM as well as for shareholders who are present at the AGM through VC-OAVM facility and wish to cast their vote during the AGM, through e-voting system ("e-voting").

The login Credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the shareholders through email after successfully registering their email addresses in the manner provided above. The detailed procedure for casting votes through "remote e-voting" and "e-voting" shall be provided in detail in the Notice of the AGM.

> For and on behalf of AKG EXIM LIMITED

JD. No.2

J.D. No.4

Place: Gurugram Mahima Goel Date: : 3rd September, 2022 (Managing Director)

Sportking INDIA LIMITED

CIN: L17122PB1989PLC053162

REGD. OFFICE: Village Kanech, Near Sahnewal, G.T Road, Ludhiana-141120, Phone: 0161-2845456,

website: www.sportking.co.in, Email: cs@sportking.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that The 33rd Annual General Meeting of the members of Sportking India Limited is scheduled to be held on Friday, the 30th September 2022 at 10.00 AM at Registered Office of the company situated at Village Kanech, Near Sahnewal GT Road, Ludhiana-141120 (Punjab).

2. Electronic copies of Annual Report for FY 2021-22 including the Notice of AGM have been sent to all the members who have registered their email ids with depositories or with the company. The same are also available on the website of the Company www.sportking.co.in. The Physical Copy of Annual Report for FY 2021-22 including the Notice of AGM have been sent to other members at their registered address in the permitted mode.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013. read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the company is providing to its members, the facility to exercise their right to vote at the 33rd AGM by electronic means ("remote evoting"), and the business may be transacted through the e-voting services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). All the members are informed that:

 Date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday, 27th September 2022, at 09.00 am.

Date and time of end of remote e-voting; Thursday, 29th September

2022 at 5.00 pm. Cut-off date: Friday, 23rd September 2022.

 d. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the company as on the cut-off date of Friday, 23rd September 2022. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date

i.e. Friday, 23rd September 2022 may obtain their User ID and password by sending a request to beetalrta@gmail.com. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting through remote

e. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 pm on 29th September 2022.

f. Facility for voting through ballot paper (poll) shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. g. Members who have cast their vote by remote e-voting may also

attend the meeting, but shall not be allowed to vote again at the AGM. h. A person, whose name is recorded in the register of Members or in the register of Beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-

voting as well as voting at the AGM through ballot paper.

The Company has appointed Mr. Sunny Kakkar, Practicing Company Secretary (M. No. FCS 10111 & C.P. No. 12712) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The notice of 33rd AGM is available on the company's website

www.sportking.co.in as well as stock exchanges website. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual

available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at Corporate Office, Village Kanech, G.T. Road, Near Sahnewal, Ludhiana-141120, Punjab, Phone No.: 0161-2845456 (Ext: 258), Email: cs@sportking.co.in. FOR SPORTKING INDIA LIMITED

MUNISH AVASTHI

MANAGING DIRECTOR DIN: 00442425

FORM No. - 5 **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL** 600/1, University Road, Hanuman Setu Mandir, Hazratganj, Lucknow

(Area of Jurisdiction, Part of Uttar Pradesh)
SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION

Date: 01.07.2022 (Summons to defendants under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to banks and financial institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

M/S RASHMI TRADERS through its proprietor Mrs. Rashmi Mishra, R/o 32, Ambica Arcade, I.T. Crossing, Lucknow. U.P. MRS. RASHMI MISHRA W/o Shri Manish Mishra, R/o 111 Defendents Chandganj Garden, Kapoorthala, Lucknow, U.P. MANISH MISHRA S/o Mr. Krishna Kumar Mishra, R/o 111 In the above noted Original application you are required to file reply in Paper Book form in twi sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorise

agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or h

counsel/duly authorised agent after publication of the summons and thereafter to appea before the Tribunal on 05.09.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard

and decided in your absence.

AKG

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

OSWAL YARNS LIMITED REGD. OFFICE: OSWAL HOUSE, LINK ROAD, INDUSTRIAL AREA-A, LUDHIANA-141003 EMAIL: oylyarns@rediffmail.com, CIN: L117111PB1082PLC005006, PHONE:0161-2224256

NOTICE is hereby given that 40th Annual General Meeting of the Company will be held

on Friday 30th September 2022 at 10.30 A.M at Chik-Fi Restaurant Metro Road Jamalpur Colony, Ludhiana to transact the business set out in the Notice dated 23rd August, 2022. The Company is providing the facility of voting electronically (remote voting) through a voting Platform of Central Depository Services India Limited. The procedure for E-voting is given Under "Voting through electronic means in the Notice. E-voting period commences on Tuesday, September 27, 2022 at 9.00 A.M and ends on Thursday, September 29, 2022 at 5.00 P.M. During this period, shareholders of the Company as on cutoff date i.e Friday, September 23, 2022 may cast their vote electronically. The remote e-voting facility shall not be allowed beyond the said time and date. Any person who becomes the member of the company after despatch of notice of the meeting and holding shares on the cut-off date i.e September 23, 2022. may obtain the User Id and Password sending request at delhi@linkintime.co.in. The detailed procedure for obtaining of User Id and Password is also provided in the Notice available at Company's website and CDSL website. If the member is already registered with the Registrar for e-voting may attend the meeting but shall not been titled to cast their vote again. The Notice of the 40th AGM is also displayed on the Company's website www.oylyarns.com. In case of any queries or issues regarding e-voting you may refer the FAQ'S and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or the grievance can be addressed to Mr. Bansi Lal Bhat, Chief Financial Officer at the Registered office of the

Company or at email at oylyarns@rediffmail.com or at phone no:0161-2224256. The Register of Members and Share Transfer books of the Company shall remain close from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General meeting of the Company.

Place : Ludhiana Date: 05.09.2022

Form No. 1

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007 DRC No. 611/2019/LKO

NOTICE UNDER RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH SECTION 29 OF RDDB & FI ACT, 1993

Indian Overseas Bank Vs. M/s Shri Vayusut Enterprises Private Limited and others.

J.D. No. 1 M/s Shri Vayusut Enterprises Private Limited having its registered office at Shree Lok, 80/1, Krishan Flour Mill, Railway Road, District - Meerut & work office at 1924, 3" Kuncha Chelan, Khari Bawli, Delhi - 1100006 through its Sri Amit Garg son of Sri Bharat Bhusan Garg, r/o C-5,

European Estate Colony, Near Best Price, Delhi Dehradun By Pass Road, District - Meerut. J.D. No.3 Smt. Varsha Garg wife of Sri Amit Garg, r/o C-5, European Estate Colony, Near Best Price, Delhi Dehradun By-Pass Road, District - Meerut.

79-C, New Mandi, District - Muzaffar Nagar. This is to notify that a sum of Rs 1,11,39,978.00 (Rupees One Crore Eleven Lacs Thirty Nine Thousand Nine Hundred Seventy Eight Only) together with pendentlite and future interest @ 12% per annum from the date of filing of the original application i.e. 12.09.2016 till full realization, has become due from you as per the

certiticate bearing No. 611 / 2019 dated 18-09-2019 in O.A. No.1066/16, passed against you by DRT, Lucknow. You are hereby directed to pay the sum within 15 days of this Notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act.

You are hereby ordered to declare on Affidavit the particulars of

assets on or before, 20,09,22 You are hereby ordered to appear before the undersigned on 20.09.22 at 11:00 A.M.

In addition to the sum aforesaid you will also be liable to pay: **Details of Cost:** Rs 1,14,000=00

Application Fee Advocate Fee Rs 30,000=00 Publication charges Rs.3,500=00 Misc. Charges Rs 3.000=00 Rs 3,000=00 Clerical Charges

Given under my hand and Seal on this 17" Day of August 2022

Registrar Office I, Debts Recovery Tribunal, Lucknow

MASTER TRUST LIMITED

(CIN: L65991PB1985PLC006414) Regd. Office: Master Chambers, 19, 3rd Floor, Feroze Gandhi Market, Ludhiana - 141001, Punjab, Phone : 0161-5043500, 513 Website: www.mastertrust.co.in, E-mail: secretarial@mastertrust.co.in

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of Members of the Company will be held on Thursday, 29th day of September 2022, at 11.00 A.M. at Master Chambers, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana-141001, Punjab to transact the businesses set out in the Notice convening the meeting ("the Notice") for the Financial Year 2021-22.

In compliance with MCA circulars and SEBI circular dated May 13, 2022, the Notice of 37th Annual General meeting and detailed instructions and information relating to e-voting, together with Annual Report of the Company for the Financial Year 2021-22 has been sent through electronic mail to the members whose e-mail addresses have been registered with the Company/RTA/Depositories and the Notice of Annual General Meeting has also been dispatched at the registered addresses of the members on 03.09.2022 and the same are also available on the Website of the Company at https://www.mastertrust.co.in/investor-relation.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting), provided by NSDL.

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in dematerialised form are allowed to vote through their Demat Account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email address in their Demat Accounts in order to access e-Voting facility.

The e-voting period commences on Monday, September 26, 2022 at 10:00 AM and ends Wednesday, September 28, 2022 at 5:00 PM. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialised form as on Friday, September 23, 2022 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them

in the paid-up equity share capital of the Company as on 23.09.2022. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares on the Cut-off date, may obtain a login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. The Company has appointed Mr. Rajeev Bhambri, Company Secretary in Practice as

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the meeting is provided Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 26th

37th Annual General Meeting of the Company.

Place: Ludhiana

September, 2022 to 29th September, 2022 (both days inclusive) for the ensuing

For Master Trust Limited Sd/ VIKAS GUPTA CORAL NEWSPRINTS LTD.

CIN NO: L22219DL1992PLC048398, E-mail: cnpl_5000@rediffmail.com Website: www.coralnewsprintslimited.com, Tel.: 22010998 NOTICE

company will be held on Friday, September 30, 2022 at 02.00 P. M. through video conferencing to transact the businesses set out in the 30th AGM notice. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, September 24. 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 30th AGM. Annual Report for the financial year 2021-22 alongwith 30th AGM Notice have been dispatched in electronic mode to all other members whose email ids are not registered, through permitted mode and sent in electronic mode to all those Members whose e-mail ids are registered with the company/ RTA/ DPs, on September 5, 2022. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made there under and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically, through e-voting services provided by Link Intime India Pvt. Ltd. on the businesses to be transacted at 30th AGM. Members may note that :

ends on September 29, 2022 at 5:00 P.M.

30th AGM shall be September 23, 2022.

d) Any person who acquires share of the company and becomes member of the company after dispatch of AGM Notice and holding shares as on cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at

Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M on September 29, 2022 A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. g) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register

www.coralnewsprintslimited.com and Link Intime website www.linkintime.co.in In case of any query/grievance connected with remote e-voting, please contact link intime india pvt ltd address: Noble Heights First Floor, C-1 Block Near Shastri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, 011-41410592

Place: Delhi

10. Last date for receipt of expression of interest

DIRECTOR

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Authority under which Corporate Debtor Registrar of Companies-Kanpur s incorporated / registered Corporate identity number / limited liability J55204UP2015PTC070370 sentification number of Corporate Debtor Address of the Registered Office and Registered Office Address as per MCA rincipal office (if any) of Corporate Records: Plot No. B-180, Flat No. 1 Lohia Nagar Ghaziabad, UP-201001 nsolvency commencement date of the 13.06.2022 corporate debtor 6.09.2022 late of invitation of expression of interest Can be sought by sending a request to the Resolution Professional at: cirp.mv@gmail.com ligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at: Can be sought by sending a request to the Resolution Professional at: cirp.mv@gmail.com Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:

Date of issue of provisional list of 01.10.2022 prospective resolution applicants Last date for submission of objections 06.10.2022 to provisional list 13. Date of issue of final list of prospective 6.10.2022 resolution applicants Date of issue of information memorandum. 06.10.2022 valuation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants Manner of obtaining request for

21.09.2022

Only such applicants that meet the eligibility criteria (as resolution plan, evaluation matrix, per point 8 above) and have signed NDA, will be nformation memorandum and further Last date for submission of resolution plans

Manner of submitting resolution plans to resolution professional ubmit resolution plan or plans prepared it coordance with the provisions of the Code, 2016 and the regulations to the resolution professions electronically (duly protected by password and the

As soon as approved by the members of Smt. Sudha Garg wife of Sri Bharat Bhusan Garg, r/o Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval Committee of Creditors. Name and registration number of the Name: Mr. Anurag Nirbhaya IBBI/IPA-001/IP-P00870/2017- 2018/11468 Name: Mr. Anurag Nirbhaya Name, Address and e-email of the

> Address: 204, Sagar Plaza, Plot No. 19. correspondence with the resolution District Centre Laxmi Nagar, New Delhi-110092. professional E-mail: cirp.mv@gmail.com Further details can be sought by sending a Further Details are available at or with request to the Resolution Professional at: cirp.rnv@gmail.com

> Mr. Anurag Nirbhaya Resolution Professiona In the Matter of RNV Hospitality Services Private Limited IBBI Reg. No.:-IBBI/IPA-001/IP-P00870/2017- 2018/11468

AFA Validity - 14/12/2021 to 13/12/2022 Regd. Address: -204, Sagar Plaza, Plot No. 19, District Centre Laxmi Nagar New Delhi-110092 E-Mail: cirp.mv@gmail.com; anurag@canirbhaya.com

CIN: L65993DL1987PC028669 Regd. Office: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh,

Email: moongipac@gmail.com, Website: www.mongipa.com NOTICE

ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE Notice is hereby Given that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, September, 29, 2022 at 01:00 p.m (IST) through Video conferencing/ other audio visual means without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to transact the business, as set out in the notice of the AGM. The dispatch of the Annual Report of the company for the Financial

Year 2021-22 along with the AGM notice and E-voting procedure to the

members was completed on Monday, September 05, 2022.

In compliance with the above said circulars, Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI The 35th AGM will be conducted through video conferencing (VC)/other Audio-Visual means (OAVM) for this company has engaged its RTA-Skyline Financial Services Private Limited for making necessary arrange-

Central Depository Services Limited (CDSL), to enable them to cast their votes for the resolution proposed to be transacted at the AGM. (www.evotingindia.com).

BOOK CLOSURE: Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members

26th September, 2022 to 29th September, 2022 (both days inclusive). The remote e-voting shall commence from 26th September, 2022

and Share Transfer Books of the Company will remain closed from

iii. Members attending the meeting, who have not casted their vote by remote e-voting, shall be eligible to exercise their right at the AGM.

register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on Cutoff date i.e. 23rd September, 2022 only shall be entitled to avail the facility

contact write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (02223058738)

For Moongipa Capital Finance Limited

Company Secretary & Compliance Office Date: 05.09.2022 New Delhi

Original Application No. 358 of 2020 INDIAN BANK (erstwhile Allahabad Bank) VS M/S RASHMI TRADERS & ORS.

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the

a) The business may be transacted through voting by electronic means. b) Remote E-voting shall commences on September 27, 2022 at 9:00 A.M. and

c) Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or in the

mumbai@linkintime.co.in.

of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the remote e-voting facility as well as voting in the AGM.) Notice of 30th AGM is placed on the Company's website

By order of the Board

(P.P.S. CHAUHAN) Dated: 05.09.2022

Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate ersons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS Name of the Corporate Debtor RNV Hospitality Services Private Limited Date of incorporation of Corporate Debtor 27.04.2015

FOR OSWAL YARNS LIMITED Sd/ Tej Paul Oswal (Managing Director) DIN: 0781144

rovided access to the request for Resolution Plan. aluation matrix and information memorandum and Data Room through electronic form. The applicants can raise specific request at email id: cirp.mv@gmail.com. 5.11.2022 prospective resolution applicant in the final list may

password should be shared by another email) along with a copy in sealed envelope at the address nentioned in pt. no. 21. Further details will be provided n the request for Resolution Plan.

Address: 204, Sagar Plaza, Piot No. 19, resolution professional, as registered District Centre Laxmi Nagar, New Delhi-110092 with the Board E-mail: anurag@canirbhaya.com Name: Mr. Anurag Nirbhaya Address and email to be used for

23. Date of publication of Form G 06.09.2022

Place:New Delhi Dated:06.09.2022

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED

New Delhi - 110005 IN. Tel: 011-41450121

The Annual Report has being sent only through electronic mode. The same is also being made available on the Company's website at www.mongipa.com and is also available on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Those members whose email IDs are not registered and those shareholders who are holding shares in physical form, are requested to register their email with Registrar & Transfer Agent i.e., compliances@skylinerta.com by writing an email either to the RTA at compliances@skylinerta.com or the Company at moongipac@gmail.com carrying the following details or through their respective depositories: Name as registered with the RTA/Depository, Address, email, copy of PAN, DPID/Client ID/Folio Number, Number of shares held, scanned copy of share certificate (front and back).

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: ments and conducting the AGM through VC/OAVM using their platform. Company is pleased to provide its shareholders e voting facility through

Company is pleased to provide its shareholders with facility to attend the AGM through video conferencing (VC)/other Audio-Visual means (OAVM) through login into the website of CDSL (www.evotingindia.com).

All Members are hereby informed that: (9:00 A.M.) and ends on 28th September, 2022 (5.00 P.M.). ii. The cut-off date for determining eligibility to vote shall be 23rd September,

Members who have casted their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. Persons whose name is recorded in the Register of Members or in the

v. In case of any queries / grievances relating to e voting, members may By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi Gulshan Ahuja Dated: 05.09.2022 Company Secretary and Compliance Officer

Date: September 05, 2022 NOTE: The Register of Members and Transfer Books of the Company will remain closed from 24th September, 2022 till 29th September, 2022 (Both days inclusive) for determining the names of

Place: New Delhi

Members eligible for dividend on Equity Shares, if declared at the Meeting. financialexp.epapr.in

R.C. No. 455/2019 in O.A. No. 101/2019

2. Harpal Singh S/o Sh. Ajmer Singh, R/o House No.86, Dhimr

3. Tarun Dubey S/o Sh. Surd Ram Dubey, R/o Village Kopa Krivali,

(ii) You are, hereby called upon to deposit the above sum within 15 days of

Act, 1993 and Rules there under:-

(iv) In case the above said amount is not paid by you then you are hereby

Given under my hand & seal of this Tribunal on this date 23[™] August 2022.

CIN: L74899DL1983PLC015416

The remote e-voting window will open at 10.00 A.M. on 27th September, 2022 and

cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting Further pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure requirements)

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general The Notice, including the draft Resolution(s), the corresponding statement under

(Aayush Dhawan) Place: New Delhi Date: 06.09.2022

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirtieth Annual General Meeting of Incone Finance

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this resolution, the Board of

RESOLVED FURTHER THAT any of the Directors be and are hereby severally authorized

To consider and if thought fit, to give assent/ dissent to the following Resolution as Special "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 and other applicable provisions if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Companies (Incorporation) Rules,

> By Order of the Board For Incone Finance Limited Rajat Agarwal

> > Date: 05.09.2022 PLACE: LUDHIANA

TIKA RAM EDUCATION SOCIETY (REGD.)

Applications are invited from eligible candidates for the following Haryana Govt. aided vacan posts of Assistant Professors on regular basis in Tika Ram College of Education Sonepat (approved by NCTE) run by the society.

 Assistant Professor in Education-01 (General) 2. Assistant Professor in Education (Teaching of Physical Science)-01 (General) 3. Assistant Professor in Education (Teaching of Economics)-01 (General) 4. Assistant Professor in Education (Teaching of Mathematics)-01 (General) 5. Assistant Professor in Education (Teaching of English)-01 (General) 6. Assistant Professor in Education (Teaching of Hindi)-01 (General).

Age, Qualifications, norms, selection criteria and pay scale as per Haryana Govt., U.G.C and Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology (DCRUST), Murthal Sonepat. Eligible persons may apply to General Secretary, Tika Ram Education Society (Regd.) Sonepat sent to Tika Ram Model School Sonepat, on plain paper mentioning al details of the candidate along with attested copies of all certificates and a demand draft of Rs 500/- for General and Rs. 250/- for B.C (A) and S.C candidates respectively in favour of Principal, Tika Ram College of Education, Sonepat within 21 days of publication of this advertisement i.e. upto 26.09.2022.

One copy of the application along with attested testimonials be sent to Dean (Colleges), Deer Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology (DCRUST), Murthal, Sonepat. No consideration for postal delay. Surinder Singh Dahiya, President

Tika Ram Education Society Sonipat

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-111, दिल्ली के समक्ष चतुर्ध तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना 3र्रो.ए. सं. 803/2021

बैंक ऑफ बड़ौदा विरुद्ध आवेदक

मैसर्स श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज एवं अन्य

डी-1 मैसर्स श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज अपने प्रोपराइटर के माध्यम से

निवासी गेट नंबर ३, बींच पड़ी चौक, बरसात रोड पानीपत, हरियाणा — 132103 **डी-2 श्री दिवांश् जैन** पुत्र शील चंद जैन

फ्लैट नंबर 901, ब्लॉक सी1, किंग्सबरी अपार्टमेंट टीडीआई सिटी, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा, 131028 **डी–3 श्रीमती सरिता जैन** पत्नी शील चंद जैन

फ्लैट नंबर 901, ब्लॉक सी1, किंग्सबरी अपार्टमेंट टीडीआई सिटी, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा, 131028 जबिक उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबिक न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 26—10—2022 को पूर्वा. 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई

तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण, सभी मामलों की सूनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की

सभी अधिवक्ता / विवादी Cisco Webex ऐप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे रिजस्ट्रार / वसुली अधिकारी- । / तथा वसुली अधिकारी- । । द्वारा मामलों की सुनवाई की अगली तिथि हेत् Meeting ID तथा Password अंगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल नामत

drt.gov.in पर पर सार्वजनिक सुचना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध होगा। i) किसी कार्याधिक्य की स्थिति में, अधिवक्ता / विवादी संबंधित पदाधिकारी से फोन नंबर 23748469 पर

सम्पर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 17 अगस्त, 2022 को दिया गया। न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा

DCM FINANCIAL SERVICES LIMITED CIN: L65921DL1991PLC043087

Read. Office: D 7/3, Okhla Industrial Area, Phase- II, New Delhi 110020 Email: info@dfslonline.in, Website: www.dfslonline.in, Tel.: 011-26387750 31ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING

Notice is hereby given that 31st Annual General Meeting (AGM) of members of DCM Financial Services Limited ("the Company") is scheduled to be held through video conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday, 30th September, 2022 at 01:00 P.M. in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and circulars issued thereunder, to transact the business items as set out in the notice of AGM which shall inter-alia contain the instructions for joining AGM through VC.

Manner of registering/updating e-mail addresses:

Members holding shares in Demat form and who are yet to register/update their email IDs are requested to approach NSDL/CDSL ('Depository Participant') in case of dematerialized shares. Members holding shares in physical form are requested to send their duly signed request letterstoMCS Share Transfer Agent Ltd, F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020,or email at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com to our RTA along with self- attested copies of PAN Card and address proof to register their email ids.

Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the business items as set out in notice of AGM. The remote e-voting shall commence from 27th September, 2022 (09:00 A.M.) to 29th September, 2022 (05:00 P.M.). The cut-off date for the purpose of E-voting shall be 23rd September, 2022. The manner of casting vote through e-voting system including those by physical shareholders or by shareholders who have not registered their email ids or person who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice shall be provided in notice of AGM. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforementioned date and time.

The company shall provide for voting by members present at the meeting through e-voting. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Amember whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the general meeting.

Copy of the AGM notice along with Annual Report for financial year 2021-22and login details for such voting, will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/ DP in due course and will be made available on the website of the Company i.e. at https://dfslonline.in/investor.html and on the website of stock exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange Limited

The Shareholders may contact Ms. Somali Tiwari, Company Secretary & Compliance Officer of the Company at the address of registered office of the Company or by writing at info@dfslonline.in

For DCM Financial Services Limited

Nidhi Deveshwar Date: 06/09/2022 Whole-Time Director

Place: New Delhi DIN: 09505480 देखें विनियमन-15 (1) (ए)

ऋण वसुली अधिकरण चंडीगढ (डीआरटी 2) 1ला तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ (3रे एवं 4थे तल पर भी स्थान आवंटित)

मामला सं.: ओए/188/2018 ऋण वसुली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन्स

यनियन बैंक ऑफ इंडिया

मै. शौर्य लॉजिस्टिक्स

मै. शौर्य लॉजिस्टिक्स. द्वारा उसके प्राप्राईटर श्रीमती रेखा रानी. कार्यालय : शॉप नं. 03 पंचगांव विनोला पोस्ट ऑफिस एवं जिला गुरूग्राम, हरियाणा-122001

निवासी : ग्राम धोर्का, पोस्ट मंगरोला, धोर्का (120) गुरूग्राम, हरियाणा-122505

जैसा कि ओए/188/2018 दिनांक 23.8.2022 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था जैसा कि माननीय अधिकरण रु. 1047594/- के ऋणों की वसली के लिए दाखिल (ओए) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर समन्स/सूचना सहर्ष जारी किया है। (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार प्रतिवादियों को निम्न निदेश दिया जाता है। i) समन्स की सर्विस के तीस दिनों के भीतर यह कारण दर्शाएं की मांगी गई राहतों को क्यं न स्वीकार की जाए ii) मुल आवेदन के क्रमांक 3 ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त सम्पि या परिसम्पत्तियों के विवरणों को उदघाटित करना

ii) सम्पत्तियों के एटैचमेन्ट के लिए आवेदन की सुनवाई तथा निपटारे के लम्बित होने की स्थिति में मुल आवेदन वे क्रमांक 3ए के अंतर्गत उद्घाटित किसी अन्य परिस्थितियों एवं सम्पत्तियों अथवा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का व्यवसाय या निपटारा करने से आपको वंचित किया जाता है। ri) आप अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी किसी भी परिसम्पत्तिः

जिस पर प्रतिभृति हित निर्मित है एवं/ अथवा मुल आवेदन के क्रमांक 3ए के अन्तर्गत निर्दिष्ट या उद्घाटित किर्स अन्य परिसम्पत्तियों या सम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से आप अंतरण नहीं करेंगे। 🕧 आप प्रतिभृत परिसम्पत्तियों या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में अन्य परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों अथवा प्रतिभृ परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा उगाही की गई बिक्री राशि का ब्यौरा देने तथा ऐसी परिसम्पत्तियों पर प्रतिभृति हिं धारित करने वाले बैंक या वित्तीय स्थानों में प्रबंधित खाता में उक्त बिक्री राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप लिखित स्पष्टीकरण दें तथा उसकी एक प्रति आवेदक के पास प्रस्तुत करें तथा 01.03.2023 को 10.30 को पूर्वा. में रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन की सुनवाई तथ

निर्णय आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी। मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज दिनांक 30.08.2022 को दी गई।

· Import · Export

ऋण वसूल अधिकरण चंद्रीगत



कॉर्पोरेट कार्यालय: युनिट नंबर 237, 02 वीं मंजिल, टॉवर-बी, स्पाजेज, सेक्टर-47, सोहना रोड, गुरुग्राम-122018, हरियाणा वेबसाइट: www.akg-global.com | ईमेल: info@akg-global.com, फोन: +91-124-4267873

वाडिया कान्फ्रंस (वासी) / अन्य आडिया-विजुअल साधना (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 17वीं की वार्षिक आम बैठक, कटऑफ तिथि के संबंध में सुचना।

एकेजी एक्जिम लिमिटेड ('कंपनी') के शेयरधारकों को एतद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम. 2013 ('अधिनियम') के लागु प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमें और कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 और 02/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 औ 05 मई, 2022 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 एवं SEBI/HODDHS/P/CIR /2022/0063 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022 (सामृहिक रूप से 'सेबी सर्कुलर' के रूप में संदर्भित) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी किए गए अन्य लाग परिपत्रों के अनपालन में उक्त एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए 17वीं (सत्रहवीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को शाम 04.00 बजे किसी कॉमन स्थान प शेयरधारकों की बिना भौतिक उपस्थिति के वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी

1. उपरोक्त परिपत्र के अनुपालन में, एजीएम की सुचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्टॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ई-मेल पते कंपर्न के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए) या संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.akg-global.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटः (www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध होगी।

2. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन्होंने कंपनी/आरटीए या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, से अनुरोध है कि वं वार्षिक रिपोर्ट / लॉगिन क्रेडेंशियल की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां प्राप्त करने के लिए संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/आरटीए और कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें। क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रतियां किसी शेयरधारक को नहीं भेजी जाएंगी 3. ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल के साथ समझौता किया है ताकि शेयरधारकों को एजीएम में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव पर और साथ ही एजीएम में वीसी-ओएवीएम सुविधा के माध्यम से मौजूद और ई-वोटिंग सिस्टम ('ई-वोटिंग') के माध्यम से एजीएम के दौरान अपना वोट डालने के इच्छक शेयरधारकों के लिए मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से उनके ईमेल पते को ऊपर दिए गए तरीके से सफलतापूर्वक पंजीकृत करने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। 'रिमोट ई-वोटिंग' और 'ई-वोटिंग' के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिय एजीएम की सुचना में विस्तार से प्रदान की जाएगी।

> कृते एवं हिते एकेजी एक्जिम लिमिटेड

> > महिमा गोयल

स्थानः गुरुग्राम दिनांकः: 3 सितंबर, 2022

(प्रबंध निदेशक



रेल विकास निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली - 110066 ईमेल: investors@rvnl.org, वेबसाइट : www.rvnl.org सीआईएन: L74999DL2003GOI118633,

19वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारको को सूचना

1. एतद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम की सुचना में निर्घारित प्रकार्यों के लेन–देन हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से **शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को 11:30 बजे पूर्वा**. (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी जिसे अलग से सर्कुलेट किया जा रहा है। जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी परिपत्र संख्या 02 / 2022 दिनांक 05 मई, 2022 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपन्न सं. 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021 तथा सामान्य परिपन्न सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 परिपन्न संख्या 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के साथ पठित, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा साथ ही कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभित एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र के साथ पठित परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई. 2022 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी (LODR) विनियम"), के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की 19वीं एजीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

2. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 सहित एजीएम की सूचना कम्पनी के केवल उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com, एनएसडीएल (ई-वोटिंग / रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदाता एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com तथा कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए), मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट www.alankit.com पर भी उपलब्ध है।

ई–मेल पते पंजीकृत/अपडेट करने की रीति

(क) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से और भौतिक रूप से शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए) अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 पर या मेल virenders@alankit.com द्वारा पंजीकृत करें।

(ख) शेयरधारक जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे नीचे दिए गए तरीके से युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

(i) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित किए गए हैं तो कृपया ई-मेल virenders@alankit.com द्वारा फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) प्रदान करें ।

(ii) यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-क्लाइंटआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी-क्लाइंटआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व प्रमाणित स्कैन प्रति) virenders@alankit.com पर प्रदान करें । यदि आप डीमैट विधि में प्रतिभूतियों को रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो कृपया एजीएम की सूचना में बताई गई लॉगिन विधि देखें। (ग) वैकल्पिक रूप से शेयरधारक / सदस्य ये दस्तावेज e-voting@nsdl.co.in पर उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेज

रिमोट ई—वोटिंग / एजीएम में ई—वोटिंग करने की रीति

 क) सदस्यों को इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम की सचना में निर्धारित प्रकार्य पर अपना मतदान करने का अवसर प्रदान किया जायेगा । ख) डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं उनके द्वारा रिमोट ढंग से मतदान (''रिमोट ई-बोटिंग') की रीति एजीएम की सूचना में दी गयी है। ये विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com

ग) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जायेगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे एजीएम में

घ) ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतू लॉगिन विवरण सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे। जिन सदस्यों को ई-मेल नहीं प्राप्त हुआ अथवा जिनके ई-मेल कम्पनी / अलंकित एसाइनमेंटस / डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत नहीं हैं वे एजीएम की सूचना के नोट्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करके लॉगिन विवरण सुजित

लामांश प्राप्त करने के लिए अधिदेश दर्ज कराने का तरीका :

(क) लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है । लाभांश वारंट / डिमांड डाफ्ट

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से लागांश के भुगतान के लिए, जिन सदस्यों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) सुविधा का विकल्प नहीं चुना है, उनसे ईसीएस मैंडेट फॉर्म भरने और ईसीएस सुविधा का लाग उठाने के लिए इसे सीधे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को जमा करने का अनुरोध किया जाता है । भौतिक रूप में शेयर रखने वाले व्यक्ति ईसीएस मैंडेट फॉर्म को अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (अलंकित' या आरटीए') को भेज सकते हैं । शेयरधारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जो ईसीएस स्विधा का

विकल्प नहीं बना चाहते हैं, वे अपने बैंकर का नाम, शाखा का पता और खाता संख्या अलंकित को ई-मेल कर सकते हैं ताकि वे लाभांश वारंट पर इन विवरणों को प्रिंट कर सकें । सदस्य कृपया एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी नोट और विभोष रूप से ई─मेल आईडी पंजीकृत / अपडेट कराने के निर्देश, रिमोट ई─वोटिंग के माध्यम

कते रेल विकास निगम लिमिटेड

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

TATA ELXSI LTD Registered Address: ITPB Road, Whitefield, Bengaluru, Karnataka - 560048

NOTICE is hereby given that the certificate(s) for the undermentioned securities of the Company has been lost and the holder(s) of the said securities/ applicant(s) has applied to the Company to issue duplicate certificate(s). Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company wil proceed to issue duplicate certificate(s) without further intimation. Name(s) of holder(s): **Deepak** Khanna, Kind of Securities and face value 10/ Equity Shares, No. of Securities 100, Folio No EXD0001433. Distinctive Nos. 7897311-7897410 Date: 06.09.2022 Name(s) of the Claimant(s) DEEPAK KHANNA

COURT NOTICE In the court of Sh. Inderjeet

Singh JMIC-3, Jalandhar The Jalandhar Central Co Operative Bank

Neetu CNR NO: PBJL03-017543-2019 Next date: 07-10-2022

Publication Issued To: Neetu: W/o Subhash Chander R/o Hno 605 Karol Bagh Backside Lawrence School Distt Jalandhar

n above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 07-10-2022 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.i n/ ?trs=district_notice&district=Jalandhar JMIC-3, Jalandhar

पंजाब नैशनल बैंक ... भरोसे का प्रतीक !

सस्त्र सेन्टर, क्षेत्रीय कार्यालय : बरेली सी-18/बी, प्रथम तल, डी.डी. पुरम, बरेली Ph: 0581-2520446 (Fax) E-mail: cs8194@pnb.co.in

कब्जा धारण की सूचना

अधोहस्ताक्षरी जो कि पंजाब नैशनल बैंक ने सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत प्राधि त अधिकारी है ने धारा 13(2) जिसे सिक्योरिटी इंट्रैस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के साथ पढ़ा जाये, में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए माँग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को माँग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान नोटिस की दिनांक सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था भुगतान करने में असमर्थ रहने के कारण ऋणी/मोर्टगेजर तथा सामान्य जनता को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपरोक्त एक्ट की धारा 13 (4) जिसे इंफोर्समैंट नियम 8 के साथ पढ़ा जाये में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा दिनांक 27,28 अप्रैल एवं 2 मई 2022 को प्राप्त कर लिया है ऋणी व मोर्टगेजर को विशिष्ट रूप से तथा सामान्य रूप से सतर्क किया जाता है कि निम्न सम्पत्तियों का सौदा न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार/लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक की सम्बन्धित शाखा की ऋण राशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के आधीन होगा। **जिन** सम्पत्तियों पर कब्जा किया गया उनका विवरण इस प्रकार है

| क्र. सं. | ऋणी खाते का नाम व पता गारन्टर का नाम व पता शाखा का नाम | धारा 13 (2) के अंतर्गत बकाया राशि एवं मांग सूचना दिनांक | गिरवी रखी अचल सम्पित्यों का विवरण |
|-------------|--|---|--|
| 1. | कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर गुप्ता | + दिनांक 01.06.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्चे सूचना दिनांक 15.06.2022 एवं प्रतिकात्मक | आवासीय मकान के साम्यिक बन्धक क्षेत्रफल 76.08 वर्ग मी. श्री रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर गुप्ता एवं श्रीमती गिरजा गुप्ता पत्नी श्री जुगल किशोर गुप्ता के नाम स्थित मो. इन्द्रा नगर, उदयपुर खास, बरेली बिक्री विलेख के अनुसार बुक सं. 01, जिल्द सं. 7877, पेज नं. 105 से 150, क्रम सं. 5959, दिनांक 30.05.2015 को उप रिजस्ट्रार सदर से पंजीकृत चौहद्दी: पूरब - म.सं. 01 नरेश प्रसाद, पश्चिम - उमेश चन्द्र शर्मा का मकान, उत्तर- गली 12फिट चौड़ी बदहू म.सं. 04 रछपाल, दक्षिण - गली 12फिट चौड़ी बदह अन्य व्यक्ति का मकान, |

नोट : किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अंग्रेजी में प्रकाशित अंग्रेजी के विज्ञापन को वरीयता दी जायेगी प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 06.09.2022 स्थान : बरेली



ISHAN INTERNATIONAL LIMITED

(CIN: U74899DL1995PLC069144)

Our Company was originally incorporated as Ishan International Private Limited on May 29, 1995 under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, New Delhi. Subsequently the name of the company was changed from "Ishan International Private Limited" to "Ishan International Limited" under the Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on January 11, 2022 and had obtained fresh certificate of incorporation dated January 17, 2022 issued by the Registrar of Companies, New Delhi. For details pertaining to the change of name of our company and change in the address of the registered office, please refer to the chapter titled 'History and Certain Corporate Matters' beginning on page no. 114 of this Prospectus

Registered Office: 607 Chiranjiv Towers, 43, Nehru Place, New Delhi – 110019, India; **Tel. No.**: +91 9315603745; +91 120 4211766/ 4320794; Corporate Office where books of account and papers are maintained: 1616, WTT Building, 16th Floor, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh -201301; **Tel:** +91 9315603745; +91 120 4211766/ 4320794; **Website:** www.ishanglobal.com; **E-mail:** cs@ishangroup.co.in; Contact Person: Ms. Khushboo Soumik Shah, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTER: MR. SHANTANU SRIVASTAVA

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 22,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF ISHAN INTERNATIONAL LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER COMPANY") FOR CASH AT A PRICE RS. 80/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 70/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 1824.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OUT OF WHICH 1,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH FOR A CASH PRICE OF RS. 80/-PER EQUITY SHARE. AGGREGATING TO RS. 96.00 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION" PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 21,60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. 80/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 1728.00 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 31.63 %AND 29.97 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS. PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 206 OF THIS PROSPECTUS.

> **OPENS ON: SEPTEMBER 09, 2022; FRIDAY CLOSES ON: SEPTEMBER 14, 2022, WEDNESDAY**

FIXED PRICE ISSUE AT RS. 80 PER EQUITY SHARE IS 8.0 TIMES OF THE FACE VALUE.

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 1.600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1.600 EQUITY SHARES THEREAFTER

ASBA*

ISSUE

Simple, Safe, Smart way of Application Make use of it!!!

Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheque will be accepted.

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to

issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the

same. For details, check section on ASBA below.



UPI now available in ASBA for retail individual investors applying through Registered Brokers, DPs, & RTAs Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being blocked by ASBA Bank List of Banks supporting UPI is also available on SEBI at www.sebi.gov.in

beginning on page no. 214 of the Prospectus. The process is also available on the website of SEBI and Stock Exchange in the General Information Document. ASBA forms can be downloaded from the website of NSE and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. The Application Forms which do not have the details of the Applicant's depository account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of RIBs using the UPI mechanism) and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic

system of the stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the application is liable to be rejected. Applicants will not

have the option of getting allotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock **PROPOSED LISTING:** The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of NSE Limited in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an In-principal approval letter dated August 30, 2022 from NSE for using its name in the

Offer Document for listing of our shares on the Emerge platform of NSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the NSE. DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Prospectus was furnished to SEBI in soft

copy. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document, Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page no.195 of the Prospectus. **DISCLAIMER CLAUSE OF THE EMERGE PLATFORM OF NSE LIMITED:** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE Limited should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by NSE, nor does it certify

the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page no.198 of the Prospectus for the full text of the

LEAD MANAGER TO THE ISSUE



FIRST OVERSEAS CAPITAL LIMITED

1-2 Bhupen Chambers, Ground Floor, Dalal Street, Mumbai-400 001 Tel. No.: +91 22 40509999 Fax No.: N.A.

Disclaimer Clause pertaining to NSE"

Email: satish@focl.in/mala@focl.in **Investor Grievance Email:** investorcomplaints@focl.in Website: www.focl.in

SEBI Registration No.: INM000003671 Contact Person: Mr. Satish Sheth/ Ms. Mala Soneii

KFINTECH

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED (Formerly known as Kfin Technologies Private Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial

District, Nanakramguda, Serilingampally, Rangareddi, Hyderabad, 500 032 Telangana, India **Tel No.**: +91 40 6716 2222 E-mail: ishan.ipo@kfintech.com

Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com Website: www.kfintech.com SEBI Registration No.: INR000000221

Contact Person: M Murali Krishna

REGISTRAR TO THE ISSUE

New Delhi - 110019, India Website: www.ishanglobal.com Email: cs@ishangroup.co.in

Applicants can contact the Compliance Officer or the LM or the Registrar to the Issue in case of any Pre-Issue or Post-Issue related problems, such as nonreceipt of Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds etc.

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE

OFFICER

International

MS.Khushboo Soumik Shah

607, Chiranjiv Tower, Nehru Place,

BANKER TO THE ISSUE AND SPONSOR BANK: AXIS BANK LIMITED

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: The Application Forms and copies of the Prospectus may be obtained from the Registered Office and Corporate Office of "Ishan International Limited and from Registered Office Lead Manager: First Overseas Capital Limited. Application Forms will be available at the selected location of registered brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can also be obtained from the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in .Application Forms can also be downloaded from the website of Stock Exchange at www.nseindia.com.

and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus shall be available at the websites of SEBI-www.sebi.gov.in, Stock Exchange www.nseindia.com, Lead Manager-www.focl.in and Issuer Company-www.ishanglobal.com **GENERAL RISK:** Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment

investors is invited to the section, "Risk Factors" on page no. 25 of the Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013 Main Objects of the Company as per MOA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 114 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for

by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Prospectus. Specific attention of the

inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 305 of the Prospectus. **Liability of Members as per MOA:** The Liability of the members of the Company is Limited.

Capital Structure: Authorized Capital of the Company is Rs. 1,000 Lakhs consisting of 1,00,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each. Pre-Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital Rs 492.78 Lakhs consisting of 49,27,843 Equity Shares of Rs.10 each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital Rs. 720.78 Lakhs consisting of 72,07,843 Equity Shares of Rs.10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page 56 of the Prospectus.

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Mr. Shantanu Srivastava & Mrs. Nishi Srivastava (10 Equity Shares) and Mr. Virendra Kumar Srivastava (10 Equity Shares), being the

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated September 01, 2022 Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page no. 25 of the Prospectus before making any investment decision.

FOR Ishan International Limited On behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi Date: September 05, 2022

MR. SHANTANU SRIVASTAVA **Promoter Director**

Company-www.ishanglobal.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 25 of the Prospectus, which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Communicate India

www.readwhere.com

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 05,09,2022





सकते हैं।

पर भी उपलब्ध कराई जायेगी।

उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने अपने बँक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।

से मतदान या एजीएम के दौरान मतदान की रीति और लाभांभा सम्बन्धी सूचना ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

कल्पना दुबे

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved

subscribers to the MoA of our Company.

'ISHAN INTERNATIONAL LIMITED' is proposing, subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, New Delhi. The Prospectus shall be available on the websites of SEBI-www.sebi.gov.in, Stock Exchange - www.nseindia.com, Lead Manager-www.focl.in and Issuer





Date: September 06, 2022

To,
The Chief Manager
Listing Compliance
National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

SYMBOL: AKG, Security: Equity

Sub: <u>Disclosure under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Submission of Newspaper advertisement of the Notice of Annual General Meeting</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisement, published in English Newspaper having nationwide circulation (Financial Express) and one in Vernacular Newspaper (Jansatta) on Tuesday, September 06, 2022, regarding details of 17th Annual General Meeting of the Company.

The advertisements will also be made available on the website of the Company at www.akg-global.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For AKG EXIM LUMINED

Reeta

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above